



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2011/आश्विन 25, 1933

No. 221]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2011/ASVINA 25, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2011

सं. 82/(आरई-2010)/2009-2014

विषय : आयातित आग्नेयास्त्रों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया-पुस्तक, खंड-I, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.43.2 में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/34/एम-09/पीसी-2 (बी).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया पुस्तक, खंड-I, 2009-2014 के पैरा 2.43.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“2.43.2

- (i) आयात की तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद आयातित माल के हस्तांतरण अथवा निपटान हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) आयातित आग्नेयास्त्रों के हस्तांतरण के लिए ऐसे आयातक द्वारा (क) आयात के 10 वर्षों के बाद अथवा (ख) 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, विदेश व्यापार महानिदेशालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) प्रसिद्ध निशानेबाजों\* को आयात की तारीख से 5 वर्षों के पश्चात् आयातित हथियार (आग्नेयास्त्रों) के हस्तांतरण के लिए भी विदेश व्यापार महानिदेशालय से पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे निशानेबाजों के संबंध में जिन्हें प्रसिद्ध निशानेबाज के रूप में 3 वर्षों तक श्रेणीकृत किया गया है उन्हें आयात की तारीख से 3 वर्षों के पश्चात् विदेश व्यापार महानिदेशालय से पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

\*प्रसिद्ध निशानेबाज को आयात-निर्यात मर्चों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण, अनुसूची-1-आयात नीति, के अध्याय-93 की आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी-(3) में परिभाषित किया गया है।”

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव

आयातित आग्नेयास्त्रों की बिक्री अथवा हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल कर दी गई है और कुछ श्रेणियों के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की पूर्वानुमति समाप्त कर दी गई है।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 17th October, 2011

**No. 82/(RE-2010)/2009-2014****Subject : Amendment of Para 2.43.2 of the Handbook of Procedures, Vol. I, 2009-2014, regarding Transfer of Imported Firearms.****F. No. 01/93/180/34/AM-09/PC-2(B).**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, Para 2.43.2 of the Handbook of Procedures, Vol. I, 2009-2014 is replaced as under :—**“2.43.2**

- (i) Prior Permission of RA shall not be required for transfer of disposal of imported goods after a period of two years from the date of import.
- (ii) Transfer of Imported Firearms will not require permission from DGFT (a) after 10 years of import or (b) on attaining the age of 60 years by such importer.
- (iii) Prior Permission of DGFT shall also not be required for transfer of imported weapons (firearms) by the Renowned Shooters\* after 5 years from date of import. In respect of those shooters categorised as Renowned Shooter for at least 3 consecutive years, no permission would be required from DGFT after 3 years from date of import.

\*Renowned Shooter is defined in Import Licensing Note (3) of Chapter 93, ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, Schedule I—Import Policy.”

**Effect of Public Notice**

Procedure for sale or transfer of imported firearms is simplified and prior permission from DGFT is dispensed with in respect of some categories.

**ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade**